

Choose the correct option from the options given below for each question :

निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन करें :

(1) Where do you provide a step-by-step account of what the researcher and participants did during the research study ?

- a. Introduction
- b. Abstract
- c. Procedure
- d. Design

शोध अध्ययन के दौरान शोधकर्ता और प्रतिभागियों ने क्या किया, इसका चरण-दर-चरण विवरण आप कहाँ प्रदान करते हैं ?

- a. परिचय
- b. सार

B528/36/36

(2)

Contd.

c. कार्यविधि

d. योजना

(2) Research is _____

- a. A purposeful, systematic activity
- b. Conducted for purely academic purposes
- c. Conducted to answer questions about practical issues
- d. A random, unplanned process of discovery

शोध _____ है :

- a. एक उद्देश्यपूर्ण, व्यवस्थित गतिविधि
- b. विशुद्ध रूप से शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए आयोजित किया गया ।
- c. व्यावहारिक मुद्दों के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए आयोजित किया गया ।

B528/36/36

(3)

(Turn over)

d. खोज की एक यादृच्छिक, अनियोजित प्रक्रिया।

(3) The quality of research is judged by the _____

- a. Relevance of research
- b. Methodology adopted in conducting the research
- c. Depth of research
- d. Experience of researcher

शोध की गुणवत्ता का आकलन _____ द्वारा किया जाता है।

- a. अनुसंधान की प्रासंगिकता
- b. अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति
- c. अनुसंधान की गहराई
- d. शोधकर्ता के अनुभव

(4) How can the objectivity of research be enhanced ?

- a. Through its impartiality
- b. Through its reliability
- c. Through its validity
- d. All the above

शोध की विषयनिष्ठता को कैसे बढ़ाया जा सकता है ?

- a. इसकी निष्पक्षता के माध्यम से
- b. इसकी विश्वसनीयता के माध्यम से
- c. इसकी वैधता के माध्यम से
- d. उपरोक्त सभी

(5) Manipulation is always a part of _____

- a. Historical research
- b. Fundamental research
- c. Descriptive research
- d. Experimental research

हस्तकौशल हमेशा _____ का एक हिस्सा होता है।

राज का एक यादृच्छिक, अनियोजित प्रक्रिया।

(3) The quality of research is judged by the _____

- a. Relevance of research
- b. Methodology adopted in conducting the research
- c. Depth of research
- d. Experience of researcher

शोध की गुणवत्ता का आकलन _____ द्वारा किया जाता है।

- a. अनुसंधान की प्रासंगिकता
- b. अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति
- c. अनुसंधान की गहराई
- d. शोधकर्ता के अनुभव

(4) How can the objectivity of research be enhanced ?

- a. Through its impartiality
- b. Through its reliability
- c. Through its validity
- d. All the above

शोध की विषयनिष्ठता को कैसे बढ़ाया जा सकता है ?

- a. इसकी निष्पक्षता के माध्यम से
- b. इसकी विश्वसनीयता के माध्यम से
- c. इसकी वैधता के माध्यम से
- d. उपरोक्त सभी

(5) Manipulation is always a part of _____

- a. Historical research
- b. Fundamental research
- c. Descriptive research
- d. Experimental research

हस्तकौशल हमेशा _____ का एक हिस्सा होता है।

- a. ऐतिहासिक शोध
- b. मौलिक अनुसंधान
- c. वर्णनात्मक अनुसंधान
- d. प्रायोगिक अनुसंधान

(6) Research ethics do not include _____

- a. Honesty
- b. Subjectivity
- c. Integrity
- d. Objectivity

अनुसंधान नैतिकता में _____ शामिल नहीं है।

- a. ईमानदारी
- b. आत्मीयता
- c. अखंडता
- d. निष्पक्षतावाद

(7) Which of the following types of researches determines the relationships between two or more variables ?

- a. Survey research
- b. Correlational research
- c. Action research
- d. Both a and c

निम्नलिखित में से किस प्रकार का शोध दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध निर्धारित करता है ?

- a. सर्वेक्षण अनुसंधान
- b. सहसंबद्ध अनुसंधान
- c. क्रिया-शोध
- d. ए और सी दोनों

(8) Which of the following is an indication of the quality of a research journal ?

- a. Impact factor
- b. h-index
- c. g-index
- d. i10-index

निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध पत्रिका की गुणवत्ता का संकेत है ?

- a. इम्पैक्ट फैक्टर (प्रभाव कारक)
- b. एच -सूचकांक
- c. जी-सूचकांक
- d. आई 10-सूचकांक

(9) Arrange the following steps of research in correct sequence :

- I. Identification of research problem
- II. Listing of research objectives
- III. Collection of data
- IV. Methodology
- V. Data analysis
- VI. Results and discussion

Codes:

- a. I, II, III, IV, V and VI

- b. I, II, IV, III, V and VI
- c. II, I, III, IV, V and VI
- d. II, I, IV, III, V and VI

अनुसंधान के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें :

- I. अनुसंधान समस्या की पहचान
- II. अनुसंधान उद्देश्यों की सूची
- III. डेटा का संग्रहण
- IV. क्रियाविधि
- V. डेटा विश्लेषण
- VI. परिणाम और चर्चा

कोड:

- a. I, II, III, IV, V और VI
- b. I, II, IV, III, V और VI
- c. II, I, III, IV, V और VI
- d. II, I, IV, III, V और VI

निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध पत्रिका की गुणवत्ता का संकेत है ?

- a. इम्पैक्ट फैक्टर (प्रभाव कारक)
- b. एच -सूचकांक
- c. जी-सूचकांक
- d. आई 10-सूचकांक

(9) Arrange the following steps of research in correct sequence :

- I. Identification of research problem
- II. Listing of research objectives
- III. Collection of data
- IV. Methodology
- V. Data analysis
- VI. Results and discussion

Codes:

- a. I, II, III, IV, V and VI

- b. I, II, IV, III, V and VI
- c. II, I, III, IV, V and VI
- d. II, I, IV, III, V and VI

अनुसंधान के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें :

- I. अनुसंधान समस्या की पहचान
- II. अनुसंधान उद्देश्यों की सूची
- III. डेटा का संग्रहण
- IV. क्रियाविधि
- V. डेटा विश्लेषण
- VI. परिणाम और चर्चा

कोड:

- a. I, II, III, IV, V और VI
- b. I, II, IV, III, V और VI
- c. II, I, III, IV, V और VI
- d. II, I, IV, III, V और VI

B528/36/36

(9)

(Turn over)

B528/36/36

(8)

Contd.

(10) Which research paradigm is based on the pragmatic view of reality ?

- a. Quantitative research
- b. Qualitative research
- c. Mixed research
- d. None of the above

कौन सा शोध प्रतिमान वास्तविकता के व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है ?

- a. मात्रात्मक अनुसंधान
- b. गुणात्मक शोध
- c. मिश्रित अनुसंधान
- d. इनमें से कोई नहीं

Language Aptitude

(11) Select the correct part of the speech of the underlined word in the given sentence A rabbit is usually safe in its burrow.

B528/36/36

(10)

Contd.

a. Adverb

b. Verb

c. Noun

d. Adjective

(12) Fill in the blank with correct form of word given in bracket.

I really appreciate ____ (be) on holiday.

a. to be

b. being

c. has been

d. enjoying

(13) Choose the correct meaning of the underline phrasal verb in the given sentence.

Public criticism is beginning to get to the team manager.

B528/36/36

(11)

(Turn over)

- a. To succeed in making somebody understand something
- b. To affect somebody in a bad way
- c. To collect people in one place
- d. To make somebody get out of bed

14) Fill in the blank using appropriate condition :

— you put in all sincere efforts, you won't come out with flying colours.

- a. Till
- b. ~~Until~~
- c. If
- d. Unless

9 Find one word for the underlined group of words in the following sentence.

He always sees the dark side of life. So he is a/an —

B528/36/36

(12)

Contd.

- a. Optimist
- b. Octogenarian
- c. Pessimist
- d. Misogynist

16) Fill in the blank using appropriate structure :

Everyone on the team is smiling and laughing. They — the game.

- a. Had won
- b. Must have won
- c. Should have won
- d. Might have won

17) Fill in the blank with suitable preposition.

Suresh is good — craft work.

- a. At
- b. In

B528/36/36

(13)

(Turn over)

- c. On
- d. With

(18) Write the antonym of the word 'chastity' :

- a. Modesty
- b. Virtuousness
- c. Immorality
- d. Immaturity

(19) Find the correct meaning of the word

inert :

- a. Suffering
- b. Danger
- c. Exhaustion
- d. Expectation

(20) Fill in the blank with a suitable connector:

The retailer has been making losses.

_____ he intends to wind up his business.

- a. However
- b. Though
- c. Therefore
- d. Indeed

Logical Reasoning

(21) If three numbers in the ratio 3:2:5 be such that the sum of their squares is 1862, then the middle number will be :
यदि तीन संख्याएँ 3:2:5 के अनुपात में इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योग 1862 है, तो मध्य संख्या होगी :

- a. 7
 - b. 14
 - c. 21
 - d. None of these
- इनमें से कोई नहीं

(22) The average of consecutive even numbers A, B, C, D and E is 52. what is the product of A and B ?

5 क्रमागत सम संख्याओं A, B, C, D और E का औसत 52 है। A और B का गुणनफल क्या है?

- a. 2800
b. 2600
c. 2400
d. None of these

इनमें से कोई नहीं

$$\begin{array}{r} 48 \\ \times 50 \\ \hline 2400 \end{array}$$

(23) The age of father 10 years ago was thrice the age of his son. Ten years after, the father's age will be twice that of his son. The ratio of their present age is :

10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी थी। 10 वर्ष बाद, पिता की आयु

उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है :

- a. 5:2
b. 7:3
c. 9:2
d. None of these

इनमें से कोई नहीं

(24) By selling 45 lemons for Rs. 40, a man losses 20%. How many lemons should he sell for Rs. 24 to gain 20% in the transaction ?

45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ के लिए उसे 24 रुपये में कितना नींबू बेचना चाहिए?

- a. 18
b. 16

(22) The average of consecutive even numbers A, B, C, D and E is 52. what is the product of A and B ?

5 क्रमागत सम संख्याओं A, B, C, D और E का औसत 52 है। A और B का गुणनफल क्या है?

- a. 2800
b. 2600
c. 2400
d. None of these

इनमें से कोई नहीं

Handwritten calculation:
$$\frac{48 \times 50}{2} = 2400$$

(23) The age of father 10 years ago was thrice the age of his son. Ten years after, the father's age will be twice that of his son. The ratio of their present age is :

10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी थी। 10 वर्ष बाद, पिता की आयु

उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है :

- a. 5:2
b. 7:3
c. 9:2
d. None of these

इनमें से कोई नहीं

(24) By selling 45 lemons for Rs. 40, a man losses 20%. How many lemons should he sell for Rs. 24 to gain 20% in the transaction ?

45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ के लिए उसे 24 रुपये में कितना नींबू बेचना चाहिए?

- a. 18
b. 16

- c. 20
d. None of these
इनमें से कोई नहीं


(25) 3 men or 9 boys can finish a piece of work in 21 days. In how many days can 5 men and 6 boys together do the same piece of work ?

- a. 9 days ✓
b. 12 days ✓
c. 10 days
d. Cannot be determined

3 पुरुष या 9 लड़के किसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 6 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं ?

- a. 9 दिन
b. 12 दिन

$3M + 9B \rightarrow 21$
 $5M + 6B$



- c. 10 दिन

- d. तय नहीं किया जा सकता

(26) Reasoning from general to particular is called _____

- a. Induction
b. Deduction ✓
c. Observation
d. Experience

सामान्य से विशेष की ओर तर्क करना कहलाता है :

- a. प्रेरण / अनुगम
b. निगमन
c. अवलोकन
d. अनुभव


1368263

(27) Abhinav walks 20 m north. Then he turns right and walks 30m. Then he turns right

and walks 35m. Again he turns left and walks 15m. Then he again turns left and walks 15m. The shortest distance between his original position and final one is

अभिनव 20m उत्तर की ओर चलता है। फिर वह दाये मुड़ता है और 30m चलता है। फिर वह दाये मुड़ता है और 35m चलता है। वह फिर से बाये मुड़ता है और 15m चलता है। वह फिर से बाये मुड़ता है और 15m चलता है। उसकी मूल स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है:

- a. 40m
 ✓ b. 45m
 c. 55m
 d. 60m



Select the letter cluster that can replace the question mark (?) in the following series.

B528/36/36

(20)

Contd.

RST and YZAB defgh

M, I, L, M, KQG, JTK, HXO, ECS ?

- a. AHW ✓
 b. AIW ✗
 c. BIX ✗
 d. BIV ✗

उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह (?) को प्रतिस्थापित कर सकता है।

KQG, JTK, HXO, ECS ?

- a. AHW
 b. AIW
 c. BIX
 d. BIV

(29) A is sister of B. F is daughter of G. C is mother of B. D is father of C. E is mother of D. A is related to D as :

B528/36/36

(21)

(Turn over)

- a. Grand daughter
- b. Daughter
- c. Daughter in law
- d. Sister

A, B की बहन है। F, G की बेटी है। C, B की माँ है। D, C का पिता है। E, D की माँ है। A, D की क्या है ?

- a. पोती
- b. बेटी
- c. बहू
- d. बहन

30. Select the number that can replace the question mark (?) in the following series :

17, 21, 30, 46, 71 ?

- a. 105
- b. 101

(22)

Contd.

- c. 107
- d. 100

उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह (?) को प्रतिस्थापित कर सकती है।
17, 21, 30, 46, 71 ?

- a. 105
- b. 101
- c. 107
- d. 100

Direction (Q31- Q33) Refer to the pie-chart and the table carefully and answer the given questions. Distribution of total number of cellular phones (both Nokia and Samsung) sold by six stores in October.

निर्देश (Q31-Q33) पाई-चार्ट (वृत्त चित्र) और तालिका को ध्यानपूर्वक देखें और दिए गए प्रश्नों


(23)

(Turn over)

B528/36/36

B528/36/36

के उत्तर दें। अक्टूबर माह में छह दुकानों द्वारा बेचे गए सेल्युलर फोन (नोकिया और सैमसंग दोनों) की कुल संख्या का वितरण :



Ratio of the number of Nokia cellular phones sold to that of Samsung cellular phones sold.

बेचे गए नोकिया सेल्युलर फोन की संख्या और बेचे गए सैमसंग सेल्युलर फोन की संख्या का अनुपात

Store	P	Q	R	S	T	U
Ratio	4:3	3:1	5:4	7:6	1:4	11:10

31) What is the average of Nokia cellular phones sold by store P, R, S and T together?

स्टोर P, R, S और T द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए नोकिया सेल्युलर फोन का औसत क्या है?

- a. 1008
b. 1048
c. 1006
d. None of these

इनमें से कोई नहीं

32) What is the ratio of the number of Nokia cellular phones sold by stores S to the Samsung cellular phones sold by store T and U together?

स्टोर S द्वारा बेचे गए नोकिया सेल्युलर फोन की संख्या का स्टोर T और U द्वारा मिलाकर बेचे गए सैमसंग सेल्युलर फोन से अनुपात क्या है?

a. 43:72

b. 49:76

c. 43:76

d. None of these ~~211:304~~
इनमें से कोई नहीं

(33) What is the central angle corresponding to the total number of cellular phones (both Nokia and Samsung) sold by store S?

स्टोर S द्वारा बेचे गए सेल्युलर फोन (नोकिया और सैमसंग दोनों) की कुल संख्या के अनुरूप केन्द्रीय कोण क्या है?

a. 99.2°

b. 93.6°

c. 105.6°

B528/36/36

(26)

Contd.

$$(a+5) = 10$$

d. None of these 100.8°
इनमें से कोई नहीं

(34) If the mean of $a, a+2, a+4, a+8$ and $a+11$ is 10, then a is equal to:

यदि $a, a+2, a+4, a+8$ और $a+11$ का माध्य 10 है, तो a बराबर है:

a. 1

b. 2

c. 5

d. 4

(35) Find the median from the following data:
निम्नलिखित आँकड़ों से माध्यिका निकालिए:

14, 12, 11, 17, 27, 20

a. $\frac{31}{2}$

b. $\frac{33}{2}$

$$n = 6$$
$$M = \frac{n+1}{2} = \frac{6+1}{2} = \frac{7}{2}$$

B528/36/36

(27)

(Turn over)

c. $\frac{35}{2}$

d. None of these

इनमें से कोई नहीं

(36) The World Environment Day is celebrated on which day ?

a. 5th June

b. 3rd March

c. 14th November

d. 10th December

विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है ?

a. 5 जून

b. 3 मार्च

c. 14 नवंबर

d. 10 दिसंबर

(37) Which gas has the highest percentage in our atmosphere ?

a. Hydrogen

b. Nitrogen

c. Oxygen

d. Carbon dioxide

हमारे वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है ?

a. हाइड्रोजन

b. नाइट्रोजन

c. ऑक्सीजन

d. कार्बन डाईऑक्साइड

(38) The Chipko Movement started in which decade ?

a. 1960s

b. 1970s

c. 1980s

d. 1990s

$\frac{35}{2}$

d. None of these

इनमें से कोई नहीं

(36) The World Environment Day is celebrated on which day ?

a. 5th June

b. 3rd March

c. 14th November

d. 10th December

विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है ?

a. 5 जून

b. 3 मार्च

c. 14 नवंबर

d. 10 दिसंबर

(37) Which gas has the highest percentage in our atmosphere ?

a. Hydrogen

b. Nitrogen

c. Oxygen

d. Carbon dioxide

हमारे वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है ?

a. हाइड्रोजन

b. नाइट्रोजन

c. ऑक्सीजन

d. कार्बन डाईऑक्साइड

(38) The Chipko Movement started in which decade ?

a. 1960s

b. 1970s

c. 1980s

d. 1990s

चिपको आंदोलन किस दशक में शुरू हुआ ?

- a. 1960 के दशक
- b. 1970 के दशक
- c. 1980 के दशक
- d. 1990 के दशक

(39) In which district of Kerala, the Silent Valley is located ?

- a. Palakkad
- b. Kannur
- c. Kozhikode
- d. Kottayam

साइलेंट वैली केरल के किस जिले में स्थित है ?

- a. पलक्कड़
- b. कन्नूर
- c. कोझिकोड
- d. कोट्टायम

(40) Which of the following is not related to Green House Effect ?

- a. Methane
- b. Nitrogen
- c. Carbon Dioxide
- d. Ozone

निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित नहीं है ?

- a. मीथेन
- b. नाइट्रोजन
- c. कार्बन डाईऑक्साइड
- d. ओजोन

(41) Increased levels of air pollution are directly related to which issue?

- a. Respiratory problems
- b. Soil erosion

c. Liver Problem

d. Global warming

वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का सीधा संबंध किस मुद्दे से है ?

- a. श्वसन रोग (सांस रोग) संबंधी समस्याएँ
- b. मृदा अपरदन की समस्या
- c. लीवर की समस्या
- d. ग्लोबल वार्मिंग

(42) Choose the appropriate option:

Soil Pollution can be controlled by which method of the following ?

- a. Reducing and recycling wastes
- b. Propagating organic farming
- c. Producing biogas from disposed sewage
- d. All of the above

(32)

Contd.

उपयुक्त विकल्प चुनें :

निम्नलिखित में से किस विधि से मृदा प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है ?

- a. कचरे कम करना और पुनर्चक्रण करना
- b. जैविक खेती का प्रचार-प्रसार

4 निस्तारित मलजल से बायोगैस का उत्पादन

d. उपरोक्त सभी।

(43) In India, when did the second phase of COVID-19 vaccination start ?

- a. December 2020
- b. January 2021
- c. February 2021
- d. March 2021

भारत में, COVID-19 टीकाकरण का दूसरा चरण कब शुरू हुआ ?

B528/36/36

(33)

(Turn over)

- a. दिसंबर 2020
- b. जनवरी 2021
- c. फरवरी 2021
- d. मार्च 2021

(44) Which one among the following is responsible for the degradation of biodegradable organic matter present in the daily life domestic sewage ?

- a. Animals
- b. Humans
- c. Bacteria and other microbes
- d. Plastic

दैनिक जीवन के घरेलू मैला में मौजूद बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थ के क्षरण के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है ?

B528/36/36

(34)

Contd.

- a. जानवरों
- b. इंसानों
- c. बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव
- d. प्लास्टिक

(45) Depletion of the ozone layer is damaging to human health. Negative effects include:

- a. Skin cancer
- b. Osteoporosis
- c. Cholera
- d. None of the above

ओजोन अवक्षय (ओजोन डिप्लीशन) मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं :

- a. त्वचा कैंसर
- b. हड्डी के द्रव्यमान (बोन मास) में कमी / ऑस्टियोपोरोसिस

B528/36/36

(35)

(Turn over)

- c. कॉलेरा
- d. इनमे से कोई भी नहीं

Computer & Information Technology

6) Which of the following is an open source operating system ?

- a. IOS
- b. MacOS
- c. Windows
- d. Linux

निम्न में से कौन सा ओपन स्रोत आपरेटिंग सिस्टम है ?

- a. आई ओएस
- b. मैक ओएस
- c. विंडोज
- d. लिनक्स

7) Arrange the units of computer memory in ascending order :

- (i) Terabyte
 - (ii) Kilobyte
 - (iii) Gigabyte
 - (iv) Megabyte
- a. (i), (iii), (iv), (ii)
 - b. (i), (ii), (iii), (iv)
 - c. (ii), (iv), (iii), (i)
 - d. (ii), (iii), (iv), (i)

कम्प्यूटर मेमोरी की निम्न इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें :

- (i) तेराबाइट
 - (ii) किलोबाइट
 - (iii) गीगाबाइट
 - (iv) मेगाबाइट
- a. (i), (iii), (iv), (ii)
 - b. (i), (ii), (iii), (iv)

c. (ii),(iv),(iii),(i)

d. (ii),(iii),(iv),(i)

(48) Computers use :

- a. Binary number system
- b. Decimal number system
- c. Both (a) & (b)
- d. Octal number system

कम्प्यूटर उपयोग करता है :

- a. द्विआधारी संख्या पद्धति
- b. दशमिक संख्या पद्धति
- c. दोनों (a) और (b)
- d. अष्टधारी संख्या पद्धति

(49) The computer language used on the internet is :

- a. COBOL
- b. JAVA

c. PASCAL

d. FORTRAN

इंटरनेट पर प्रयुक्त कम्प्यूटर लैंग्वेज है :

- a. कोबोल
- b. जावा
- c. पास्कल
- d. फोर्टरान

(50) The process of removing unwanted part of an image is called :

- a. Hiding
- b. Bordering
- c. Cropping
- d. Cutting

किसी चित्र के अवांछित भाग को हटाने की विधि को कहा जाता है :